

संपादकीय

चुनाव की उलटबांसी

इस लोकसभा चुनाव का एक रोचक पहलू यह है कि इसमें तीसरा मोर्चा भले न बन पाया हो पर कई क्षेत्रीय दलों के बीच गैर-बीजेपीवाद के समानांतर गैर कांग्रेसवाद का अजेंडा भी फल-फूल रहा है। पिछले कुछ समय में कई क्षेत्रीय नेताओं ने जिस तरह के स्टैंड लिए हैं, उससे उनके बीच बिना किसी मोर्चे के भी ऐसी समझदारी का अंदाजा मिल रहा है। अभी तीन-चार महीने पहले कुछ क्षेत्रों की सीटों को जीतना लगा था कि एक गैर बीजेपी और गैर कांग्रेसी फ्रंट आकार ले सकता है। लेकिन फिर एक संभावना यह भी दिखी कि ये दल बीजेपी को कहीं ज्यादा बड़ी चुनौती मानकर कांग्रेस के नेतृत्व में एकजुट हो सकते हैं, जिससे एक राष्ट्रीय स्तर का महागठबंधन आकार ले सकता है।

कर्नाटक में कांग्रेस के समर्थन से बनी एचडी कुमारस्वामी की सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में विपक्ष की व्यापक मौजूदगी और नेताओं की आपसी केमिस्ट्री को देखते हुए यह उम्मीद बंधी थी। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने कांग्रेस को दरकिनार कर आपस में गठबंधन कर लिया तो इस संभावना को गहरा धक्का लगा।

उसके बाद तृणमूल, आम आदमी पार्टी और वामपंथी दलों के नजरिये से भी अंदाजा मिला कि कुछ पार्टियां कांग्रेस को ज्यादा तवज्जो देने के मूड में नहीं हैं। कांग्रेस का जम्मू-कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस, कर्नाटक में जेडीएस, तमिलनाडु में डीएमके, महाराष्ट्र में एनसीपी, झारखंड में जेएमएम और जेबीएम तथा बिहार में आरजेडी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन जरूर हुआ लेकिन बहुत सारे क्षेत्रीय दलों से उसका कोई तालमेल नहीं हो सका। ये दल अपने सघन प्रभाव वाले राज्यों के अलावा कई अन्य राज्यों में भी कांग्रेस के लिए मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं। जैसे समाजवादी पार्टी और बीएसपी महाराष्ट्र जैसे एक-दो राज्यों में मिलकर और कुछ अन्य राज्यों में अकेले या दूसरे दलों से मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। वहां ये सीटें भले न जीत पाएं लेकिन कांग्रेस को कुछ न कुछ नुकसान तो पहुंचाएंगी ही। और मामला सिर्फ सीटों के तालमेल तक सीमित नहीं है। ये पार्टियां कांग्रेस पर वैचारिक हमले भी कर रही हैं। मायावती लगातार कांग्रेस के खिलाफ बोल रही हैं और उन्होंने राहुल गांधी की न्यूनतम आय गारंटी योजना का मजाक उड़ाया। एक तरफ ये दल बीजेपी को देश के लिए सबसे बड़ा खतरा बताते हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस को यथासंभव दबाकर रखने की कोशिश भी करते हैं।

दरअसल, उनका ध्यान बाकी सारी चीजों को छोड़कर केवल अपने भविष्य पर केंद्रित है, जिसके लिए कांग्रेस का पुनर्जीवन कोई अच्छा तत्काल नहीं है। उन्हें लगता है कि बीजेपी को हराने के नाम पर बड़ी एकजुटता बनाकर आम चुनाव भले ही जीत लिए जाएं, लेकिन इससे ताकत पाकर कांग्रेस कहीं उनकी जमीन ही न छीन ले। इतना ही नहीं, कुछ दल इस रणनीति पर भी चल रहे हैं कि चुनाव बाद बीजेपी बहुमत से दूर रही तो उससे सौदेबाजी का रास्ता अपनी तरफ से बंद नहीं किया जाना चाहिए।

एक एसएमएस से खाली हो जाएगा आपका बैंक अकाउंट

नई दिल्ली (आरएनएस)।आयकर विभाग ने सभी टैक्सपेयर्स के लिए एक चेतावनी जारी की है, जिसमें साफ-साफ कहा गया है कि फर्जी टैक्स रिफंड मैसेजों से परहेज करें, ताकि किसी भी तरह की धोखाधड़ी से बचा जा सके। विभाग का कहना है कि फर्जी टैक्स रिफंड मैसेज के बहकावे में न आएँ और किसी भी स्रोत में अपने बैंक अकाउंट, पिन, ओटीपी, पासवर्ड और अन्य फाइनेंशियल अकाउंट से संबंधित जानकारी किसी के साथ साझा न करें।

आयकर विभाग ने जारी किया अलर्ट



फिशिंग ई-मेल की पहचान

विभाग ने कहा, फिशिंग ई-मेल की पहचान सावधानी से करें। इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ बातें बताई हैं। जैसे कि जिस आईडी से मेल आया है, उसे ध्यान से देखें। उसमें या तो गलत स्पेलिंग होगी या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट से मिलता-जुलता कोई दूसरा नाम होगा।

वर्ष 2019 में अब तक 33 फीसदी महंगा हुआ बेंद्र कूड

नई दिल्ली (आरएनएस)। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की आपूर्ति घटने की आशंकाओं के बीच फिर कीमतों में तेजी का रुख बना हुआ है। कच्चे तेल के दाम में बुधवार को लगातार चौथे दिन वृद्धि का सिलसिला जारी रहा। प्रमुख तेल उत्पादक देशों के समूह ओपेक द्वारा आपूर्ति में कटौती करने से इस साल कच्चे तेल के दाम में जोरदार उछाल



आया है। वर्ष 2019 में अब तक ब्रेंट कूड करीब 33 फीसदी महंगा हो गया है। ब्रेंट कूड का भाव बुधवार को 70 डॉलर प्रति बैरल के करीब चला गया। ओपेक और रूस द्वारा कच्चे तेल के दाम को सहारा प्रदान करने के मकसद से उत्पादन में कटौती करने का फैसला लागू होने के बाद से ही कच्चे तेल में तेजी का सिलसिला जारी है।

ओप्पो ने लॉन्च किया नया स्मार्टफोन, कम कीमत में मिल रहे दमदार फीचर



नई दिल्ली। ओप्पो ने अपना नया स्मार्टफोन ओप्पो ए7एन लॉन्च कर दिया है। इस स्मार्टफोन में कंपनी ने मीडियाटेक हीलियो पी35 प्रोसेसर दिया है और फोन में एक एचडी प्लस डिस्प्ले दिया गया है। ओप्पो के इस स्मार्टफोन में 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर दिया गया है। फोन कलर ओएस 5.2.1 पर काम करता है, जो एंड्रॉइड ओरियो पर आधारित है। इन फीचर के साथ ही ओप्पो का ये स्मार्टफोन हाल में लॉन्च हुए ओप्पो एक्स5एस से अगल है। ये स्मार्टफोन चीन में लॉन्च हुआ है।

डीआरएस अंपायरों को बचा नहीं सकता: स्टार स्पोर्ट्स अधिकारी

नई दिल्ली (आरएनएस)। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 12वें संस्करण में रॉयल चैलेंजर्स बंगलोर और मुंबई इंडियंस के मैच में एस. रवि का आखिरी गेंद को नो बॉल मिस करने का विवाद टंडा भी नहीं पड़ा था कि किंग्स इलेवन पंजाब और दिल्ली कैपिटल्स के मैच में अंपायर अनिल चौधरी ने हर्डस विलजोएन की गेंद पर दिल्ली के बल्लेबाज कॉलिन इनग्राम को पगबाधा करार दे दिया था जबकि इस समय गेंद लेग स्ट्रम की बाहर जाती दिख रही थी।

महिला हॉकी : मलेशियाई चुनौती के लिए तैयार भारतीय टीम

कुआलालम्पुर (आरएनएस)। खेलेगी। नए साल में भारतीय का यह भारत की महिला हॉकी टीम गुरुवार से मलेशिया दौरे का आगाज करेगी। मुख्य कोच शुआड मरेन ने कहा है कि अनुशासन और जिम्मेदारी लेने की इच्छाशक्ति टीम को इस दौरे पर सफलता दिलाएगी। अनुभवी गोलकीपर सविता की कप्तानी में भारतीय महिलाएं मलेशिया के खिलाफ पांच मैचों की सीरीज



पहला विदेशी दौरा है। इससे पहले, 2018 में महिला टीम ने 2018 विश्व कप में कांस्य पदक जीतने वाली स्पेनिश टीम को 5-2 से हराया था और फिर 1-1 तथा 2-2 से ड्रॉ खेला था। इसके बाद हालांकि उसे 2-3 से हार मिली थी। इसके बाद भारतीय टीम 2018 विश्व कप में रजत जीतने वाली आयरिश टीम से 1-1 से ड्रॉ खेला।

न्यायालय के आदेश बाद निर्णय आरबीआई को करना है : वित्तमंत्री



नई दिल्ली (आरएनएस)। पिछले साल फरवरी में जारी किए गए आरबीआई के समयबद्ध ऋण समाधान सर्कुलर को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रद्द किए जाने के चंद्र घंटों बाद सरकार ने सधी जुबान से कहा कि अब इस बारे में केंद्रीय बैंक को सोचना है कि इस दिशा-निर्देश की अनुपस्थिति में बैंकों के कर्ज वसूलने के लिए क्या कुछ करने की जरूरत है। वित्तमंत्री ने एक प्रेस वार्ता में कहा, आरबीआई अब बाजार की मौजूदा स्थिति पर निर्णय लेगा कि 12 फरवरी के सर्कुलर की अनुपस्थिति में क्या किए जाने की जरूरत है। इससे पहले वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने इस आदेश पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने इसके साथ ही वैकल्पिक ऋण समाधान तंत्र पर भी बयान देने से इनकार कर दिया। इससे पहले दिन में सर्वोच्च न्यायालय ने 12

फरवरी, 2018 के आरबीआई के उस सर्कुलर को रद्द कर दिया, जिसमें 2000 करोड़ रुपये या इससे अधिक के ऋण के लिए 180 दिनों के भीतर ऋणदाताओं को एक समाधान योजना पेश करनी थी।

लगातार तीसरे महीने नहीं हुआ टाटा नैनो का उत्पादन

नई दिल्ली (आरएनएस)। टाटा मोटर्स ने लगातार तीसरे महीने मार्च में नैनो का उत्पादन नहीं किया। इससे एक समय में लोगों की कार बतायी गई नैनो के भविष्य को लेकर अनिश्चितता के बादल और गहरा गए। शेयर बाजारों को दी गई जानकारी में कंपनी ने कहा कि पिछले कुछ महीने में एक भी नैनो नहीं बिकी। टाटा मोटर्स अब तक इस बात पर कायम रही है कि नैनो के भविष्य को लेकर अब तक कोई फैसला नहीं किया गया है। हालांकि वर्तमान स्थिति में यह वाहन नए सुरक्षा और उत्सर्जन मानकों के अनुरूप नहीं है और इसका उत्पादन जारी रखने के लिए नए निवेश की जरूरत होगी।

आज का राशिफल

शुभ:- आज के दिन अपने निजी विचारों पर सोचसमझकर कार्य करने की सलाह गणेशजी दे रहे हैं। परिवर्तनों के कार्य करते समय आपको समाधानकारी व्यवहार अपनाना उचित रहेगा।

वृषभ:- आज आप आर्थिक जिम्मेदारियों का निर्वाह कर सकेंगे। आर्थिक लाभ होने की संभावनाएं हैं। मन में उत्साह और विचारों की स्थिरता के कारण सभी कार्य आप अच्छी तरह से कर सकेंगे।

मिथुन:- आपकी वाणी और वर्तनी के कारण शक्ति खड़ी न हो इसका ध्यान रखें। आवेष्ट और उग्रता पर नियंत्रण रखें। स्वास्थ्य का ख्याल रखें। अंकों में तकलीफ हो सकती है।

कर्क:- आज का दिन आपके लिए लाभकारी है। नौकरी और व्यापार में भी लाभ के संकेत हैं। मित्रों के साथ आनंदपूर्वक समय बिता सकते हैं। जो लोग अधिष्ठाित हैं उनके लिए आज विवाह से जुड़े शुभ संयोग बने हैं।

सिंह:- आपके कार्यक्षेत्र में आपका प्रभाव आज पड़ेगा। उच्च अधिकारियों पर आपके कार्य का सकारात्मक अंतर होने से आप पर प्रशंसा रहेगी। आप आज अपना कार्य दृढ़ मनोबल और पूर्ण आत्मविश्वास के साथ संपन्न करेंगे।

कन्या:- आपका आज का दिन प्रतिकूलताओं से भरा रहेगा ऐसा गणेशजी कहते हैं। मन चिंता से व्यग्र रहेगा। शारीरिक रूप से स्फूर्ति का अभाव रहने से थकावट और अशक्ति का अनुभव होगा।

तुला:- किसी के साथ वाद-विवाद या झगड़ा न करें। क्रोध न करें। वाणी और वर्तन पर संयम बरतना आप ही के हित में है। शत्रुओं से भी सावधान रहें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

वृश्चिक:- आज का दिन आपके लिए मनोरंजन का दिन है। मित्रों के साथ पार्टी या पिकनिक में आज का दिन बहुत अच्छी तरह से बीतेगा। वस्त्राभूषण, वाहन और भोजन का अच्छा सुख प्राप्त होगा।

धनु:- आज का दिन आपके लिए बहुत अनुकूल है ऐसा गणेशजी कहते हैं। घर का वातावरण आनंदप्रद रहेगा। शारीरिक और मानसिक रूप से प्रफुल्लता का अनुभव करेंगे।

मकर:- आज के दिन शारीरिक रूप से आलस्य, थकावट, अशक्ति रहने के कारण अस्वस्थता का अनुभव करेंगे। मानसिक रूप से भी आपको चिंता सताएगी।

कुंभ:- स्वभाव में हठीलानप छोड़ने के लिए गणेशजी आप को सूचित करते हैं। अधिक भावुकता के कारण मन में अस्वस्थता का अनुभव होगा। सामाजिक रूप से सम्मान का भंग न हो इसका ध्यान रखें।

मीन:- आवश्यक निर्णय लेने के लिए आज का दिन शुभ है। सुजानात्मक शक्ति में वृद्धि होगी। विचारों में स्थिरता तथा मन में दृढ़ता रहने से आप अपना कार्य बहुत अच्छी तरह से कर सकेंगे।

जिस घर में होती हैं ये सात चीजें, उस घर में कभी नहीं होती धन की कमी

वास्तुशास्त्र में कुछ चीजों को घर में रखना बहुत ही शुभ बताया गया है, माना जाता है कि जिस घर में ये चीजें होती हैं उस घर में कभी भी धन-धान्य की कमी नहीं होती है। हम आपको यहां उन सात चीजों के बारे में बता रहे हैं जिन्हें घर में रखने से लाभ होता है, आइए जानते हैं इनके बारे में...

वास्तुशास्त्र में भगवान श्री कृष्ण की प्रिय वस्तु मोर पंख को भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। मोर पंख को घर में रखने से घर में बरकत बनी रहती है।

ताजा फूलों को सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है, जिस घर में ताजा फूल होते हैं उस घर का वातावरण सकारात्मक बना रहता है।



घर में कछुआ रखना वास्तुशास्त्र के अनुसार बहुत ही शुभ माना जाता है, जिस घर में कछुआ होता है उस घर में धन और बरकत बनी रहती है।

फेंगशुई में महत्वपूर्ण माने जाने वाले चाइनिज सिक्के भी बहुत काम के होते हैं, इन्हें घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा घर से दूर रहती है, जिससे धन एवं सुख-समृद्धि बनी रहती है।

वास्तुशास्त्र में पिरामिड को भी बहुत महत्व दिया गया है, घर में पिरामिड रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है।

धन और सुख में वृद्धि के लिए घर में श्रीयंत्र रखें, श्रीयंत्र को घर में रखने से नकारात्मकता से भी छुटकारा मिलता है।

विश्व कप से पहले पांड्या-राहुल विवाद का पटाक्षेप चाहता है बोर्ड

नई दिल्ली (आरएनएस)। टीवी चैट शो पर महिलाओं के खिलाफ दिए गए विवादास्पद बयान को लेकर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के लोकपाल डी.के.जैन ने हरफनमौला खिलाड़ी हार्दिक पांड्या और बल्लेबाज लोकेश राहुल को नोटिस थमा दिया है। वहाँ बोर्ड की कोशिश है कि वह 30 मई से इंग्लैंड में शुरू हो रहे विश्व कप से पहले इस मुद्दे को खत्म करें।

बीसीसीआई के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि बोर्ड में



अधिकारी ने कहा, बोर्ड में हर किसी का मानना है कि इस मुद्दे को जल्द से जल्द खत्म कर देना चाहिए।

खिलाड़ियों ने गलतियाँ कीं और इसको लेकर कोई दोहरी राय नहीं हो सकती, लेकिन इसके लिए उन्हें आस्ट्रेलियाई दौरे के बीच में ही घर बुला लिया गया था और वह लोकपाल के सामने पेश होने के लिए भी तैयार हैं। अधिकारी ने कहा, विश्व कप पास है और आम राय यह है कि इस मुद्दे को खत्म कर देना चाहिए।

चीजी टोरेटिला बनाने की विधि जानिए

चीजी टोरेटिला एक बेहद स्वादिष्ट रेसिपी है और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि यह बेहद कम समय में तैयार होने वाली डिश है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास समय की कमी रहती है और हम यही सोचते हैं कि कोई ऐसी डिश बनाई जाए जो कम समय में तैयार हो जाए। ऐसे में आप चीजी टोरेटिला को कुछ ही मिन्टो में बनाकर सर्व कर सकती हैं। आइये जानते हैं इसको बनाने के लिए आवश्यक सामग्री और जानते हैं इसे तैयार करने की विधि के बारे में।

सामग्री -

- 1 प्याज कटा हुआ
- थोड़ी सी मीक्स वैज बारीक कटी हुई
- 1 कप मल्टीग्रेन आटा
- नमक स्वादानुसार
- 2 बड़े चम्मच धी
- थोड़ा सा दूध
- 1/2 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर
- 3-4 क्यूब्स चीज



चीजी टोरेटिला की विधि - इसे बनाने के लिए सबसे पहले दूध को हल्का गुनगुना कर लें। इसके बाद आप आटे में नमक व बेकिंग पाउडर मिलाकर उसको अच्छे से गूथ लें। अब स्टफिंग तैयार करने के लिए सब्जियों में नमक डाल कर मिला लीजिये। आटे की लोई बना लें तथा 4 से 5 इंच तक बेल कर इनमें सब्जी डालकर बंद कर दीजिये। इसके बाद इस छोटी छोटी लोइयों को हलके हाथ से रोटी का आकार देकर तवे पर गर्म कर दोनों ओर से तेल लगाकर सेंके। इसके बाद तवे से उतार कर चीज के साथ सभी को सर्व कीजिये।


शब्द सामर्थ्य-23

बाएं से दाएं

1. भारत के वर्तमान वित्तमंत्री
6. हित, उपकार
7. असमान, पूर्वोत्तर का एक राज्य
8. किसी वस्तु व्यक्ति आदि के पहचान सूचक संबोधन का शब्द, संज्ञा
10. शवस्थल पर बनाया गया मकान, योग का अंतिम अंग, तपस्या
13. इंकार करना, ना कहना
14. पिता, क्लर्क, सम्माननीय व्यक्ति
15. आय पर लगने वाला टैक्स, इकमटैक्स
16. प्रविष्टि, प्रेमिका का दूसरा प्रेमी
- 17.

ऊपर से नीचे

1. मारना, प्रहार करना, आघात करना
2. मिथ्याअभिमान, आर्डंबर
3. विपर्नि, आफत
4. मालदार, धनवान, अमीर
5. ज्ञान प्राप्त करना, अनुमान लगाना, कल्पना करना
7. हक 9. विचार, लाचार
11. मानकंद, नापने का पैमाना
12. अपमानित और तिरस्कृत
17. संतान उत्पन्न करने की क्रिया, जन्म देने की क्रिया
18. लंबे कपड़े का गुटडा, पशुओं को रखने की जगह
19. जलथान, वायुयान, जलपोत
21. आश्रय, सहारा
22. थोड़ा, जरा, तनिक
24. जुर्म, गुनाह
26. बाघ की तरह का धारीदार हिसक एवं विशाल पशु।



शब्द सामर्थ्य क्रमांक 22 का हल

भू	कं	प	फा	य	दा	स
प	ल	ला	ट	य	ती	म
ति	ल	क	क	न	क	झ
क्ष			रे			
ग	ण	क	सं	श	य	सौ
ह	या	च	क	म	न	त
रा	क्ष	स	र	क्ष	क	न
त्रि			मि			
शा	य	री	का	त	र	गो

सू-दोकू-23

		3				7	
9			6		3		8
	7		9		5		6
3		8		7			5
						1	9
			8		7		
							2

नियम

- कुल 81 वर्ग हैं, जिसमें 90 वर्गों का एक खंड बनाया है।
- हर खाली वर्ग में से 9 के बीच का कोई एक अंक रखा जा सकता है।
- बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे के प्रत्येक कालम, काला और खंड में 1 से 9 अंक में से किसी भी अंक का इस्तेमाल एक बार ही कर सकते हैं।

सू-दोकू क्र 22 का हल

5	2	4	9	6	7	8	1	3
3	6	7	4	1	8	2	9	5
8	1	9	3	2	5	4	6	7
6	3	5	1	9	4	7	2	8
7	9	8	5	3	2	6	4	1
2	4	1	7	8	6	5	3	9
4	5	3	6	7	9	1	8	2
9	8	6	2	5	1	3	7	4
1	7	2	8	4	3	9	5	6